



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 663]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2010/अग्रहायण 17, 1932

No. 663]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2010/AGRAHAYANA 17, 1932

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2010

सा.का.नि. 958(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्वारा मूल नियमों में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमों को बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को मूल (तीसरा संशोधन) नियमावली, 2010 कहा जाएगा।

(2) ये नियम राजकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल नियमों में नियम 56 में, खंड (घ) के पांचवें परन्तुक में “रक्षा सचिव” शब्द के पश्चात् “विदेश सचिव” शब्द को रखा जाएगा।

[फा. सं. 26012/18/2010—स्थापना (ए-IV)]

सुश्री ममता कुन्दा, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम प्रकाशित किए गए तथा 1 जनवरी, 1922 से प्रवृत्त हैं तथा इनमें बाद में, निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन किया गया, अर्थात् :—

वित्त मंत्रालय

1. अधिसूचना संख्या 12(2)-ई.वी. (सी)-63 दिनांक 21-7-1965
2. अधिसूचना संख्या 7(10)-ई.वी./63 दिनांक 23-7-1966
3. अधिसूचना संख्या 7(6)-ई.वी./68 दिनांक 8-7-1968
4. अधिसूचना संख्या 7(2)-ई.वी./67-आई दिनांक 17-5-1969
5. अधिसूचना संख्या 7(2)-ई.वी./69-आई दिनांक 26-5-1969

6. अधिसूचना संख्या 7(14)-ई.वी./67-आई दिनांक 26-5-1969

7. अधिसूचना संख्या 7(7)-ई.वी.(ए)/74 दिनांक 7-2-1975

8. अधिसूचना संख्या 7(8)-ई.वी.(ए)/77 दिनांक 20-8-1977

गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

9. अधिसूचना संख्या 19017/7/79-स्था.(ए) दिनांक 30-11-1979

10. अधिसूचना संख्या 25013/4/80-स्था.(ए) दिनांक 11-9-1981

11. अधिसूचना संख्या 15013/4/80-स्था.(ए) दिनांक 12-6-1982

12. अधिसूचना संख्या 26012/14/83-स्था.(ए) दिनांक 11-10-1983

13. अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्था.(ए) दिनांक 25-2-1984

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

14. अधिसूचना संख्या 25013/25/83-स्था.(ए) दिनांक 2-7-1985

15. अधिसूचना संख्या 25013/10/87-स्था.(ए) दिनांक 7-10-1988

16. अधिसूचना संख्या 25013/11/87-स्था.(ए) दिनांक 11-5-1989

17. अधिसूचना संख्या 25012/2/86-स्था.(ए) दिनांक 30-8-1993

18. अधिसूचना संख्या 28020/1/96-स्था.(ए) दिनांक 9-2-1998

19. अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(ए) दिनांक 13-5-1998

[सं. सा.का.नि. 248(अ) दिनांक 13-5-1998]

20. अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(ए) दिनांक 27-5-1998

[सं. सा.का.नि. 276(अ) दिनांक 27-5-1998]

21. शुद्धि-पत्र संख्या 25012/2/97-स्था.(ए)(i) दिनांक 12-11-1998

22. शुद्धि-पत्र संख्या 25012/2/97-स्था.(ए)(ii) दिनांक 12-11-1998

23. अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(ए) दिनांक 8-12-1998  
[सं. सा.का.नि. 724(अ) दिनांक 8-12-1998]
24. अधिसूचना संख्या 25012/2/97-स्था.(ए) दिनांक 25-1-1999  
[सं. सा.का.नि. 49(अ) दिनांक 25-1-1999]
25. अधिसूचना संख्या 24012/4/2001-स्था.(ए) दिनांक 4-7-2001  
[सं. सा.का.नि. 506(अ) दिनांक 4-7-2001]
26. अधिसूचना संख्या 25012/6/2001-स्था.(ए) दिनांक 27-2-2002  
[सं. सा.का.नि. 117(अ) दिनांक 27-2-2002]
27. अधिसूचना संख्या 26012/3/2005-स्था.(ए) दिनांक 27-9-2005  
[सं. सा.का.नि. 613(अ) दिनांक 27-9-2005]
28. अधिसूचना संख्या 26012/3/2005-स्था.(ए) दिनांक 29-5-2006  
[सा.का.नि. सं. 322(अ) दिनांक 29-5-2006]
29. अधिसूचना संख्या 25012/5/2007-स्था.(ए) दिनांक 4-1-2007  
[सं. सा.का.नि. 9(अ)]
30. अधिसूचना संख्या 25012/5/2007-स्था.(ए) दिनांक 17-10-2007 [सं. सा.का.नि. 668(अ)]
31. अधिसूचना संख्या 26012/5/2009-स्था.(ए) दिनांक 26-3-2009  
[सं. सा.का.नि. 203(अ)]
32. अधिसूचना संख्या 26012/12/2010-स्था.(ए) दिनांक 26-5-2010 [सं. सा.का.नि. 448(अ)]
33. अधिसूचना संख्या 25012/5/2009-स्था.(ए) दिनांक 26-10-2010 [सं. सा.का.नि. 859(अ)]

### MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2010

**G.S.R. 958(E).**—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Fundamental Rules, namely :—

1. (1) These rules may be called the Fundamental (Third Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Fundamental Rules, in Rule 56, in the fifth proviso to clause (d), after the words "Defence Secretary", the words "Foreign Secretary", shall be inserted.

[F. No. 26012/18/2010-Estt. (A-IV)]

Ms. MAMTA KUNDRA, Jt. Secy.

**Note :** The Fundamental Rules were published and came into force with effect from the 1st January, 1922 and were subsequently amended *vide* the following Notifications, namely :

#### Ministry of Finance

1. Notification No. 12(2)-EV. (C)-63 dated 21-7-1965.

2. Notification No. 7(10)-EV./63 dated 23-7-1966.
3. Notification No. 7(6)-EV./68 dated 8-7-1968.
4. Notification No. 7(2)-EV./67-I dated 17-5-1969.
5. Notification No. 7(2)-EV./69-I dated 26-5-1969.
6. Notification No. 7(14)-E.V./67-I dated 26-5-1969.
7. Notification No. 7(7)-EV. (A)/74 dated 7-2-1975.
8. Notification No. 7(8)-EV. (A)/77 dated 20-8-1977.

#### Ministry of Home Affairs, Department of Personnel and Administrative Reforms

9. Notification No. 19017/7/79-Estt. (A) dated 30-11-1979
10. Notification No. 25013/4/80-Estt. (A) dated 11-9-1981
11. Notification No. 15013/4/80-Estt. (A) dated 12-6-1982.
12. Notification No. 26012/14/83-Estt. (A) dated 11-10-1983.
13. Notification No. 25013/25/83-Estt. (A) dated 25-2-1984.

#### Department of Personnel and Training

14. Notification No. 25013/25/83-Estt. (A) dated 2-7-1985
15. Notification No. 25013/10/87-Estt. (A) dated 7-10-1988
16. Notification No. 25013/11/87-Estt. (A) dated 11-5-1989.
17. Notification No. 25012/2/86-Estt. (A) dated 30-8-1993.
18. Notification No. 28020/1/96-Estt. (C) dated 9-2-1998.
19. Notification No. 25012/2/97-Estt. (A) dated 13-5-1998  
[No. G.S.R. 248(E) dated 13-5-1998]
20. Notification No. 25012/2/97-Estt. (A) dated 27-5-1998  
[No. G.S.R. 276(E) dated 27-5-1998]
21. Corgdm. No. 25012/2/97-Estt. (A) (i) dated 12-11-1998
22. Corgdm. No. 25012/2/97-Estt. (A) (ii) dated 12-11-1998
23. Notification No. 25012/2/97-Estt. (A) dated 8-12-1998.  
[No. G.S.R. 724(E) dated 8-12-1998]
24. Notification No. 25012/2/97-Estt. (A) dated 25-1-1999.  
[No. G.S.R. 49(E) dated 25-1-1999].
25. Notification No. 24012/4/2001-Estt. (A) dated 4-7-2001 [No. G.S.R. 506(E) dated 4-7-2001]
26. Notification No. 25012/6/2001-Estt. (A) dated 27-2-2002 [No. G.S.R. 117(E) dated 27-2-2002]
27. Notification No. 26012/3/2005-Estt. (A) dated 27-9-2005 [No. G.S.R. 613(E) dated 27-9-2005]
28. Notification No. 26012/3/2005-Estt. (A) dated 29-5-2006 [No. G.S.R. 322(E) dated 29-5-2006]
29. Notification No. 25012/5/2007-Estt. (A) dated 4-1-2007  
[No. G.S.R. 9(E)]
30. Notification No. 25012/5/2007-Estt. (A) dated 17-10-2007 [No. G.S.R. 668(E)]
31. Notification No. 26012/5/2009-Estt. (A) dated 26-3-2009  
[No. G.S.R. 203 (E)].
32. Notification No. 26012/12/2010-Estt. (A-IV) dated 26-5-2010 [No. G.S.R. 448(E)]
33. Notification No. 25012/5/2009 dated 26-10-2010  
[No. G.S.R. 859(E)]